

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की संख्या 27% बढ़ गई है।
- सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन के अनुसार, शीर्ष उपभोक्ता चीन ने इस वर्ष के पहले दो महीनों में 902,000 टन कच्चे तांबे का आयात किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 2.6% अधिक है।
- 2023-24 में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन में 5 मार्च तक देशभर में चावल की खरीद 44.15 मिलियन टन तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 47.55 मिलियन टन से 7 फीसदी कम है।
- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 2024-25 रबी बाजार सीजन के दौरान 30-32 मिलियन टन के बीच गेहूं खरीद का काफी कम लक्ष्य तय किया है।
- भारत का अपने पारंपरिक स्रोत सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात फरवरी 2024 में चार महीने के उच्चतम स्तर 8,33,590 बैरल प्रति दिन से अधिक हो गया।
- भारत सरकार ने ट्रेडिंग की निगरानी करने वाले सेबी की एक सिफारिश के आधार पर स्किम्ड मिल्क पाउडर, सीमेंट, सेब, बांस और लकड़ी सहित 11 अन्य वस्तुओं में डेरिवेटिव व्यापार की अनुमति दी है।
- सरकारी तेल कंपनियां आठ राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में जैव ईंधन की आगामी मैनुफैक्चरिंग सुविधाओं से 335 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल खरीदेंगी
- भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ को उम्मीद है कि 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) खाद्य तेल सीजन के दौरान वनस्पति तेल का आयात 16.2 मिलियन टन होगा, जो 2022-23 में 17.06 मिलियन टन था।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.02.24	06.03.24	बदलाव (%)
जीरा	24745.00	26200.00	5.88%
धनिया	8000.00	8176.00	2.20%
कॉटनऑयलसीडकेक	2656.00	2694.00	1.43%
हल्दी	17162.00	17386.00	1.31%
कैस्टर ऑयल	1196.00	1208.50	1.05%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.02.24	06.03.24	बदलाव (%)
ग्वारगम	10263.00	10023.00	-2.34%
ग्वारसीड	5270.00	5180.00	-1.71%
सीसेम सीड	16065.00	15845.00	-1.37%
गुड़	1456.00	1440.50	-1.06%
धान	4154.00	4124.00	-0.72%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	29.02.24	06.03.24	बदलाव (%)
सोना	62567.00	65178.00	4.17%
चांदी	71279.00	74138.00	4.01%
सोना पेटल	6178.00	6395.00	3.51%
नेचुरल गैस	157.10	161.30	2.67%
जिंक मिनी	215.45	219.85	2.04%

साप्ताहिक समीक्षा

कमोडिटीज में नए सप्ताह की खरीदारी के कारण इस सप्ताह सीआरबी सूचकांक में भी बढ़ोतरी हुई जिसे डॉलर सूचकांक में गिरावट से भी अधिक मदद मिली। यह 320 अंक के ऊपर बंद हुआ। सोना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला रहा, जिसने विभिन्न प्लेटफार्मों पर ऐतिहासिक ऊंचाइयां हासिल कीं। कॉमेक्स पर, यह रिकॉर्ड 2169 डॉलर तक पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स पर यह 65480 तक पहुंच गया। चांदी में उल्लेखनीय तेजी देखी गई, लेकिन यह अपने उच्चतम स्तर से दूर रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि अगर मुद्रास्फीति कम होती रही तो आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी रहेगी, जिसके बाद बुधवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं। पावेल ने बुधवार को अमेरिकी सांसदों से कहा कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की अभी भी संभावना है, लेकिन केवल तभी संभव है जब मुद्रास्फीति में गिरावट के अधिक सबूत मिलें। पावेल की टिप्पणी के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक एक महीने के निचले स्तर पर गिर गया। बुधवार को आंकड़ों से पता चला कि फरवरी में अमेरिकी निजी पेट्रोल में उम्मीद से थोड़ा कम वृद्धि हुई, जबकि अपनी नौकरियों में बने रहने वाले श्रमिकों के वेतन में 2-1/2 वर्षों में सबसे धीमी गति से वृद्धि हुई, जो कमजोर श्रम बाजार के अनुरूप है। ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल की कीमतें शुरुआती उछाल के बाद स्थिर हो गईं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई। पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से कम बढ़ोतरी और ईंधन के भंडार में बढ़ी गिरावट के बाद गुरुवार को तेल की कीमतें बढ़ गईं। कच्चे तेल का भंडार लगातार छठे सप्ताह बढ़ा, जो 1.4 मिलियन बैरल तक बढ़ गया, जबकि विश्लेषकों ने 2.1 मिलियन बैरल वृद्धि का अनुमान लगाया था। ईआईए आंकड़ों से यह भी पता चला है कि गैसोलीन और डिस्टिलेटेड स्टॉक उम्मीद से अधिक कम हो गया है। बेस मेटल में मजबूती देखी गई। तांबा 730 के ऊपर बंद हुआ और लेड 180 के ऊपर बंद हुआ। एल्युमीनियम की कीमतें नियंत्रित रहीं, जबकि जिंक में मामूली बढ़त देखी गई।

कृषि कमोडिटीज में, अरंडी की कीमतों में निचले स्तर से बढ़ोतरी हुई जबकि सूरजमुखी तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह मजबूती का रूझान बना रहा। कॉटन कैंडी की कीमतों में लगातार आठवें सप्ताह वृद्धि देखी गई, जबकि भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के बाद मजबूत खरीदारी के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में चौथे सप्ताह तेजी देखी गई। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर आक्रामक खरीदारी से भी कीमतों को स्थिर रहने में मदद मिली। कपास सीजन 2023-24 के दौरान, 21 फरवरी 24 तक सीसीआई ने एमएसपी ऑपरेशन के तहत 3265971 गांठों की खरीद की है। दो सप्ताह की तेजी के बाद कपास का कारोबार एक दायरे में हुआ। ग्वारगम की कीमतें चार अंकों को पार कर गईं, जबकि ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों के निर्यात में कमी के कारण ग्वारसीड में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट हुई। नॉर्वे और नीदरलैंड से कम खरीद के साथ दिसंबर-23 में ग्वारखली का निर्यात साल-दर-साल 43% गिरकर 7.61 हजार टन हो गया। दिसंबर-23 में ग्वारगम निर्यात भी साल-दर-साल 6% कम होकर 19.7 हजार टन रह गया। मसालों में, जीरा की कीमतों को गिरावट पर रोक लग गई, जबकि हल्दी की कीमतों में प्रभावशाली वृद्धि जारी रही। धनिया की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुईं।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	29.02.2024	06.03.2024	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2042.00	2064.00	1.08%
चना	दिल्ली	6147.55	6173.05	0.41%
धनिया	कोटा	7647.45	7974.10	4.27%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	861.20	877.25	1.86%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1450.00	1434.30	-1.08%
ग्वारसीड	जोधपुर	5270.50	5193.80	-1.46%
ग्वारगम	जोधपुर	10382.00	10174.00	-2.00%
जीरा	ऊंझा	27742.90	27542.10	-0.72%
सरसों	जयपुर	5389.95	5400.95	0.20%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	937.50	937.50	0.00%
सोयाबीन	इंदौर	4625.80	4603.85	-0.47%
हल्दी	निजामाबाद	14787.05	15414.35	4.24%
गेहूं	दिल्ली	2534.85	2654.00	4.70%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2679.10	2705.25	0.98%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	29.02.2024	06.03.2024	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2228.00	2235.00	0.31%
तांबा	LME	नकद	8493.50	8577.00	0.98%
लेड	LME	नकद	2059.00	2065.50	0.32%
निकल	LME	नकद	17896.00	17717.00	-1.00%
जिंक	LME	नकद	2426.00	2494.50	2.82%
सोना	COMEX	अप्रैल	2054.70	2158.20	5.04%
चांदी	COMEX	मई	22.89	24.49	7.03%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	78.26	79.13	1.11%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	2.01	2.07	3.19%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	29.02.2024	06.03.2024	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	मई	1,140.75	1,148.25	0.66%
सोया तेल	CBOT	मई	45.21	45.32	0.24%
कॉटन	ICE	मार्च	101.56	99.14	-2.38%
सीपीओ	BMD	मई	3,970.00	4,081.00	2.80%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	29.02.2024 क्वांटिटी	06.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	16043	16043	0
बाजरा	मी.टन	312	221	-91
कैस्टर सीड	मी.टन	6937	7280	343
धनिया	मी.टन	0	0	0
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	52194	54682	2488
ग्वारगम	मी.टन	22761	21378	-1383
ग्वारसीड	मी.टन	25599	27376	1777
जीरा	मी.टन	0	0	0
स्टील	मी.टन	535	535	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	29.02.2024 क्वांटिटी	06.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1010	757	-253
तांबा	मी.टन	2115897	1674389	-441508
सोना	किग्रा	327	327	0
सोना मिनी	किग्रा	6448	6448	0
सोना गिनी	किग्रा	785700	723500	-62200
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	334837	326589	-8248
चांदी एम	किग्रा	49318	49318	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 29.02.2024	स्टॉक की स्थिति 06.03.2024	अंतर
एल्युमीनियम	586600	581900	-4700.00
तांबा	116775	113775	-3000.00
निकल	73992	73914	-78.00
लेड	183100	191800	8700.00
जिंक	275800	274900	-900.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कांटेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	24700.00	10.10.23	तेजी	25500.00	22910.00	-	22850.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	17386.00	18.01.24	तेजी	13900.00	16250.00	-	16000.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5241.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5180.00	-	5150.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	5896.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5770.00	-	5750.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	मार्च	856.60	06.03.24	तेजी	845.00	805.00	-	800.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	42740.00	27.09.23	मंदी	46300.00	-	45150.00	45300.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2729.00	14.12.23	तेजी	2450.00	2550.00	-	2520.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	933.50	27.09.23	मंदी	960.00	-	965.00	970.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	16622.00	04.03.24	तेजी	16600.00	16350.00	-	16300.00
MCX	चांदी	मई	74138.00	04.03.24	तेजी	72200.00	71200.00	-	71000.00
MCX	सोना	अप्रैल	65178.00	04.03.24	तेजी	64000.00	63400.00	-	63200.00
MCX	तांबा	मार्च	730.80	06.03.24	तेजी	730.00	712.00	-	710.00
MCX	लेड	मार्च	179.25	06.03.24	तेजी	179.00	172.00	-	170.00
MCX	जिंक	मार्च	218.60	06.03.24	तेजी	218.00	211.00	-	210.00
MCX	एल्युमिनियम	मार्च	201.60	04.03.24	तेजी	202.00	193.00	-	191.00
MCX	कच्चा तेल	मार्च	6600.00	05.03.24	मंदी	6550.00	-	6820.00	6850.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	161.30	18.01.24	मंदी	235.00	-	195.00	175.00

*06/03/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

चांदी (मई) एमसीएक्स



चांदी (मई) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 79566.00

निचला स्तर: 69300.00

एमसीएक्स में चांदी (मई) कॉन्ट्रैक्ट 06 मार्च 2024 को 74138.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 72651.18 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 70.72 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

72900.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 75500.00 ₹ के टारगेट के लिए 73800.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

जिंक (मार्च) एमसीएक्स



जिंक (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 231.55

निचला स्तर: 20540

एमसीएक्स में जिंक (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 06 मार्च 2024 को 218.60 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 216.19 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 76.51 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

210.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 230.00 ₹ के टारगेट के लिए 217.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

धनिया (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



धनिया (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 9500.00

निचला स्तर: 7460.00

एमसीएक्स में धनिया (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 06 मार्च 2024 को 8176.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 7973.83 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 78.50 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

7800.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 8700.00 ₹ के टारगेट के लिए 8100.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

भौतिक बाजार में बेहतर मांग के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सामान्य आपूर्ति से कम और स्टॉकियों की आक्रामक खरीदारी से कीमतों को तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद मिली। कम उत्पादन का प्रभाव आवक की गति पर देखा जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष के 18373 टन हल्दी के मुकाबले मार्च-24 में अब तक प्रमुख एपीएमसी बाजार में लगभग 9050 टन की आवक हुई है। मौजूदा आपूर्ति में कमी के कारण स्टॉकियस्ट कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। हल्दी की मौसमी कीमतों से पता चलता है कि मार्च के दौरान कीमतें मुख्य रूप से त्योहारी खरीदारी के कारण बढ़ जाती हैं। आने वाले महीनों में त्योहारों और शादी के मौसम की शुरुआत के मद्देनजर सक्रिय खरीदारी होने की संभावना है। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम उत्पादन क्षेत्र के कारण उत्पादन में लगभग 14% की गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। लेकिन हाल के महीनों में निराशाजनक निर्यात की रिपोर्ट से अत्यधिक बढ़त पर रोक लगने की संभावना है क्योंकि बांग्लादेश से कम खरीद के कारण भारत से हल्दी निर्यात दिसंबर-2023 में 13% घटकर 10.4 हजार टन रह गया। कीमतों में लगातार उछाल वैश्विक खरीदारों को आक्रामक खरीदारी से दूर रखेगा जिससे अत्यधिक बढ़त पर रोक लग सकती है। भारत ने अप्रैल-23-दिसंबर-23 के दौरान लगभग 121.17 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जो साल-दर-साल 2.27% कम है। हल्दी की कीमतें 16500-20000 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

निर्यात पूछताछ में सुधार के साथ जीरा वायदा की कीमतों में मिला-जुला कारोबार हुआ। मौजूदा दरों पर जीरा की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया है। जीरा के निर्यात के मौसम से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल में त्योहारों के मद्देनजर मजबूत मांग की संभावनाओं के कारण फरवरी-मार्च के दौरान निर्यात मांग अधिक रहती है। बढ़ती मांग के साथ भारत से जीरा निर्यात दिसंबर-23 में बढ़ गया क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष के 11.79 हजार टन की तुलना में दिसंबर-23 में लगभग 12.23 हजार टन का निर्यात किया। बंपर फसल की उम्मीद में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। एफआईएसएस के अनुसार खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन 65%-70% बढ़कर 10.3 मिलियन बैग होने की संभावना है। जीरा की कीमतों के 21000-32500 के दायरे में रहने की संभावना है।

भौतिक बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजार में मजबूत मांग को देखते हुए धनिया की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। भारत के उत्तरी और मध्य भाग में हाल ही में हुई बारिश से उपज के नुकसान की आशंका से भौतिक बाजार में खरीदारी गतिविधियों को समर्थन मिला। उत्पादन क्षेत्र और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी आने की संभावना है। भारत ने वर्ष 2023 में अप्रैल-दिसंबर के दौरान लगभग 78.47 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 215% अधिक है। कम उत्पादन अनुमान के कारण कमजोर आपूर्ति की संभावना के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन आने वाले हफ्तों में नई आवक शुरू होने की संभावना है जिससे बढ़त सीमित रह सकती है। धनिया की कीमतों के 7700-8900 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

भौतिक बाजार में आपूर्ति में कमी के कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। 6 मार्च को दैनिक आवक घटकर 85100 गांठ रह गई, जबकि कुल आवक 219.4 लाख गांठ हुई है। भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर आक्रामक खरीदारी से भी कीमतों को स्थिर रहने में मदद मिली। कपास सीजन 2023-24 के दौरान, 21 फरवरी-24 तक सीसीआई ने एमएसपी ऑपरेशन के तहत 3265971 गांठों की खरीद की है। आईसीई में कॉटन की कीमतों में मजबूती से भारतीय कपास की कीमतों को तेजी के रुझान पर व्यापार करने में मदद मिली। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 70%-75% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। एमसीएस पर कॉटन की कीमतों को 62000-64000 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास अप्रैल-24 वायदा की कीमतों के 1630-1700 के स्तर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आपूर्ति की कमी के बीच बेहतर मांग की संभावना के कारण कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों के 2600-2850 के दायरे में रहने की संभावना है।

मांग संबंधी चिंताओं के कारण आगामी दिनों में ग्वारसीड वायदा की कीमतों में गिरावट रहने की संभावना है। नॉर्वे और नीदरलैंड से कम खरीद के साथ दिसंबर-23 में ग्वारखली का निर्यात साल-दर-साल 43% गिरकर 7.61 हजार टन हो गया। दिसंबर-23 में ग्वारगम निर्यात भी साल-दर-साल 6% कम होकर 19.7 हजार टन रह गया। अक्टूबर-23-दिसंबर-23 के दौरान ग्वार उत्पादों का कुल निर्यात साल-दर-साल 13% कम होकर 92.3 हजार टन रह गया। सुस्त निर्यात से कीमतों पर असर पड़ेगा क्योंकि नवंबर-जनवरी ग्वार उत्पादों के अधिकतम निर्यात का समय है, लेकिन अमेरिका से सीमित मांग के कारण वर्ष 2023-24 में अब तक निर्यात सुस्त रहा है। लेकिन, घटती आवक से गिरावट सीमित रह सकती है। ग्वारसीड की कीमतों को 4950 के आसपास समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि रोजिस्टेंस 5900 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 9800 के आसपास समर्थन मिलने की संभावना है, जबकि रोजिस्टेंस 11000 पर रह सकता है।

बाजार में आपूर्ति कम होने से मेंथा ऑयल की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान के कारण मेंथा के रकबे में गिरावट की उम्मीद से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। लेकिन भारत से मेंथॉल और मेंथा कच्चे के निर्यात में गिरावट के कारण बढ़त सीमित रहने की संभावना है। मेंथा ऑयल की कीमतों को 920 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 980 के स्तर पर रोजिस्टेंस रह सकता है।

बाजार में आपूर्ति कम होने से अरंडी की कीमतें बढ़ने की संभावना है। आवक कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में अधिक वृद्धि की उम्मीद में अपना स्टॉक जारी करने में अनिच्छुक हैं। भारत ने अप्रैल-23-दिसंबर-23 के दौरान लगभग 296.5 हजार टन अरंडीमिल का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह निर्यात 282 हजार टन हुआ था। कैस्टर्सीड की कीमतों के 5600-6100 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पा

सोना अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, और 2,150 डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह उछाल तब आया है जब निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य के आलोक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदों के बीच डॉलर और ट्रेजरी की यील्ड लुढ़क गई है। पिछले दो वर्षों में मांग बढ़ने के साथ अस्थिरता के समय में सोना अधिक आकर्षक हो जाता है, और भू-राजनीतिक तनाव और वर्तमान आर्थिक माहौल के बीच 2024 में भी तेजी जारी रहने की संभावना है। फंड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने इस वर्ष किसी समय प्रतिबंधात्मक नीतियों में संभावित ढील का संकेत दिया। इसके अलावा, हाल के एडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में अमेरिकी निजी रोजगार में उम्मीद से कम वृद्धि हुई है, जबकि जेओएलटीएस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि नौकरी के अवसर पूर्वानुमान से थोड़ा कम हो रहे हैं। व्यापारी अब जून में फंड दर में कटौती की 70% संभावना जता रहे हैं, जिससे ट्रेजरी की यील्ड भी कम हो गई है, अमेरिकी दो-वर्षीय नोट की यील्ड 4.543% है, जो 1.9 बेसिस प्वाइंट कम है, और 10-वर्षीय नोट की यील्ड 4.122% है जो 3.3 बेसिस प्वाइंट कम है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 2,140 डॉलर के स्तर को पार कर गई हैं और इसके ऊपर स्थिर बनी हुई हैं। अगला संभावित लक्ष्य 2,210 डॉलर है, जिसमें 2,120 डॉलर के आसपास समर्थन है। इस बीच, कॉमेक्स पर चांदी की कीमतों के 23.80 से 26.00 डॉलर के दायरे में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। इस सप्ताह एमसीएस पर सोने की कीमतों में तेजी बनी रहने की संभावना है, जिसका लक्ष्य 66,200 है जबकि सपोर्ट 63,500 के करीब है। चांदी की कीमतों में 73,500 से 78,000 के बीच उतार-चढ़ाव हो सकता है। इस तेजी के रुझान के बीच गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

शुरुआती गिरावट के बाद कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई लेकिन अंततः गिरावट के साथ बंद हुई। बुधवार को डॉलर इंडेक्स के एक महीने के निचले स्तर पर गिरने से ऊर्जा की कीमतों को कुछ समर्थन मिला। ईआईए की साप्ताहिक रिपोर्ट से पता चला कि कच्चे तेल की आपूर्ति अनुमान से कम बढ़ी, जबकि गैसोलीन भंडार उम्मीद से अधिक कम हो गया, इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, इक्विटी में तेजी से आर्थिक परिदृश्य में विश्वास बढ़ा, जो ऊर्जा मांग के लिए अनुकूल है। सऊदी अरामको द्वारा एशियाई ग्राहकों के लिए अप्रैल डिलीवरी के लिए अपने अरब लाइट क्यूड की कीमत में उम्मीद से अधिक 1.70 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आया। चीन द्वारा लगभग 5% के वार्षिक विकास लक्ष्य की घोषणा से भी कच्चे तेल की कीमतों को समर्थन मिला। अटकलें लगाई गई कि 'चीनी सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों को लागू करेगी। इसके अलावा, ओपेक+ ने कच्चे तेल के अपने मौजूदा उत्पादन में कटौती को जून के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की, उसके बाद समायोजन बाजार की स्थितियों के अधीन होगा। लेकिन ओपेक का फरवरी में कच्चे तेल का उत्पादन 110,000 बैरल/दिन बढ़कर 26,680 मिलियन बैरल/दिन हो गया। इराक और यूएई ने अपने उत्पादन कोटे को पार कर लिया, जिससे तेल की कीमतों पर असर पड़ा। इस बीच, यूक्रेनी डॉन हमलों से रूसी कच्चे तेल की रिफाइनिंग में तेजी आई, जिससे कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक व्यवधानों के बावजूद, हमलों से नुकसान हुए रूसी सुविधाओं की मरम्मत की जा चुकी है और वे क्षमता के करीब काम कर रहे हैं। आगामी दिनों में तेल की कीमतों को 6400 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है और 6700 के करीब रोजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, हल्के पूर्वानुमानों के बावजूद नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ीं, क्योंकि उत्पादकों ने अधिक भंडार के बीच उत्पादन कम कर दिया। लंबी अवधि के मौसम पूर्वानुमानों में मांग में थोड़ी वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में अगले छह से 10 दिनों में अधिक तापमान की उम्मीद है। आने वाले सप्ताह में, नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है, और 145 के करीब सपोर्ट और 175 के करीब रोजिस्टेंस होने की संभावना है।



बेस मेटल


बेस मेटल तेजी के रुझान के साथ कारोबार होने की संभावना है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के आश्वासन के बाद केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में दरों में कटौती करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है और धातुओं की मांग बेहतर हो सकती है। लेकिन मांग को लेकर अनिश्चितता और चीन में प्रोत्साहन उपायों पर विवरण की कमी का असर काउंटर पर पड़ सकता है। अपनी संसदीय बैठक में शीर्ष उपभोक्ता चीन से नीतिगत समर्थन की कमी ने व्यापारियों को निराश कर दिया। 2024 के लिए चीन का 5% विकास लक्ष्य, जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, निवेशकों को खुश करने में विफल रहा। तांबे की कीमतें 718-743 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एलएमई के दैनिक आंकड़ों से पता चलता है कि एलएमई-पंजीकृत गोदामों में तांबे के भंडार में गिरावट जारी है और छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। यांगशान तांबे का प्रीमियम बढ़कर 60 डॉलर प्रति टन हो गया, जो 19 जनवरी के बाद सबसे अधिक है, जो चीन में तांबे के आयात में बढ़ोतरी का संकेत देता है। सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन के अनुसार, शीर्ष उपभोक्ता चीन ने इस साल के पहले दो महीनों में 902,000 टन कच्चा तांबा आयात किया, जो एक साल पहले की तुलना में 2.6% अधिक है। जिंक की कीमतें 210-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। दक्षिण कोरिया में यंग पूंग कॉर्प के सियोकपो स्मेल्टर में 20% उत्पादन कटौती के कारण जिंक की कीमत में वृद्धि जारी रह सकती है। लोड की कीमतें 175-184 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 197-210 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। यूरोपीय संघ महीनों से रूसी एल्युमीनियम के संभावित प्रतिबंध पर चर्चा कर रहा है। यदि यूरोपीय संघ नए प्रतिबंधों के साथ रूस से एल्युमीनियम खरीदना बंद करने का निर्णय लेता है, तो इससे कमी हो सकती है और एल्युमीनियम की कीमतें बढ़ सकती हैं। स्टील लॉन (मार्च) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 41700-43400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान 2023-24

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 309 मिलियन टन होने का अनुमान है। खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन 1541.87 लाख मीट्रिक टन और रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन 1551.61 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। पिछले कृषि वर्ष से, ग्रीष्म ऋतु को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस वर्ष क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल दो मौसम यानी खरीफ और रबी मौसम शामिल हैं।

यह अनुमान मुख्य रूप से राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसए) से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह की रिपोर्ट और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ मान्य और सामंजसित किया गया है। इसके अलावा अनुमान तैयार करते समय जलवायु परिस्थितियों, पिछले रुझानों, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, मंडी में आवक आदि पर भी विचार किया जाता है।

- वर्ष 2023-24 में खरीफ चावल का उत्पादन 1114.58 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो 2022-23 के 1105.12 लाख मीट्रिक टन की तुलना में, 9.46 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि है। रबी चावल का उत्पादन 123.57 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
- गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
- श्री अन्न (खरीफ) का उत्पादन 128.91 लाख मीट्रिक टन और श्री अन्न (रबी) का उत्पादन 24.88 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ज्वार (खरीफ) और ज्वार (रबी) का उत्पादन क्रमशः 15.46 लाख मीट्रिक टन और 24.88 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.66 लाख मीट्रिक टन और 1.66 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके अलावा, पोषक/मोटे अनाज (खरीफ) का उत्पादन 356.11 लाख मीट्रिक टन और पोषक/मोटे अनाज (रबी) का उत्पादन 144.61 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
- तूर का उत्पादन 33.39 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो पिछले साल के उत्पादन 33.12 लाख मीट्रिक टन के लगभग बराबर है। इसके अलावा तूर की कटाई अभी भी जारी है, जिसके परिणामस्वरूप आगामी अनुमानों में बदलाव हो सकता है। चने का उत्पादन 121.61 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के चने के उत्पादन से थोड़ा कम है लेकिन औसत (2018-19 से 2022-23) उत्पादन से अधिक है। मसूर का उत्पादन 16.36 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के 15.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 0.77 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
- सोयाबीन का उत्पादन 125.62 लाख मीट्रिक टन और रेपसीड और सरसों का उत्पादन 126.96 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के उत्पादन के लगभग बराबर है, लेकिन औसत उत्पादन से 20.57 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
- कपास उत्पादन का अनुमान अक्टूबर में अनुमानित 31.6 मिलियन गांठ से बढ़ाकर 32.3 मिलियन गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) कर दिया गया है। लेकिन, यह पिछले वर्ष के 33.6 मिलियन गांठ के उत्पादन से कम होने की उम्मीद है।
- सरकार का अनुमान है कि गन्ने का उत्पादन पिछले साल के 490.5 मिलियन टन की तुलना में कम होकर 446.4 मिलियन टन होगा, लेकिन अक्टूबर के अनुमान 434.7 मिलियन टन से अधिक है।



स्रोत: पीआईबी

कमजोर मानसून, जलाशयों के स्तर में गिरावट और फसल कैलेंडर में बदलाव के कारण खरीफ और रबी दोनों मौसमों (मानसून और सर्दियों की फसल) के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कम होने का अनुमान है। कम फसल उत्पादन से चावल, अरहर, उड़द और मक्का जैसी कुछ फसलों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाएगा।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।